

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने कक्षा 10 वीं (रेगुलर) परीक्षा के नतीजे घोषित किए -लड़कियों का लड़कों से बेहतर प्रदर्शन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आज दसवीं (रेगुलर) कक्षा के परिणाम जारी किए, जिसमें 97.16 प्रतिशत छात्र पास हुए। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करके शीर्ष स्थान हासिल किए। ये परिणाम ऑनलाइन www.jmicoe.in पर उपलब्ध हैं।

कोविड-19 की वजह से लाँकडाउन हालात में भी, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय (सीओई) ने जामिया स्कूलों के छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, दिन रात एक करके नतीजों को समय पर निकाला। यह जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो.नजमा अख्तर के सक्षम मार्गदर्शन में पारदर्शी, कुशल, और समयबद्ध परीक्षा प्रणाली को पूरा करने के लिए जामिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रो अख्तर ने सफलता पाने वाले छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये छात्र राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देंगे और जामिया का नाम ऊंचा करेंगे। उन्होंने नतीजों की समय पर घोषणा करने के लिए सीओई और उनके कार्यालय के कर्मचारियों की सराहना की।

कुल 633 छात्रों ने दसवीं कक्षा की परीक्षाओं में हिस्सा लिया, जिनमें 324 लड़कियां और 309 लड़के हैं। इनमें से 98.15 प्रतिशत लड़कियां और 96.12 प्रतिशत लड़के पास हुए। पास होने वाले कुल छात्रों में से 453 ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाए। ये छात्र जामिया के तीन स्कूलों - जामिया गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (जेजीएसएसएस), जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल (जेएसएसएस) और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (एसएचएसएसएस) के हैं।

सुश्री एनी अली (जेएसएसएस) ने 99.43 प्रतिशत अंकों के साथ जामिया स्कूलों में टॉप किया। 98.71 प्रतिशत के साथ सुश्री जुलेखा अख्तर (जेजीएसएसएस) ने दूसरा स्थान और सुश्री रबाब ज़हरा (जेजीएसएसएस) ने 98.43 प्रतिशत के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

परीक्षा नियंत्रक (सीओई), डॉ नाज़िम हुसैन जाफ़री ने समय पर नतीजे निकालने के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के समर्पित कर्मचारियों की टीम और डीन, शिक्षा संकाय से मिले समर्थन के लिए सबका धन्यवाद किया। उन्होंने जामिया के स्कूलों के प्रधानाचार्यों और स्टाफ को, परीक्षाओं के समय पर संचालन, उत्तर प्रतियों को जांचने और समय पर नतीजों का एलान करने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना की। कक्षा दसवीं और बारहवीं (प्राइवेट) के परिणाम 17 जुलाई, 2020 को घोषित किए जाएंगे।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक